

Gerund और infinitives जानने से पहले हमें verbs के बारे में जानने की जरूरत है। क्या आप अपना कोई भी sentence बिना verb के बोल सकते हैं? Try कीजिए ....

Sentences बन तो जाएंगे पर एक complete वाक्य नहीं होगा। किसी भी वाक्य में 3 parts होने आवश्यक है SUBJECT, VERB और OBJECT . हम यहाँ बात करते हैं Verbs की। Verbs मतलब action words

Gerund और infinitives भी तरह के verbs हैं - Non-Finite Verbs. अब Non-Finite Verbs क्या है ?Verbs दो प्रकार के होते हैं - Finite Verbs और Non-Finite Verbs. जल्दी से हम जान लेते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं।

### **Finite Verbs**

Finite verb (जिसे कभी कभी मुख्य verb भी कहते हैं) वह verb है जो subject और अपनी form tense के according बदल लेते हैं। ये tense को बताते हैं और main verb की तरह use होते हैं। साथ ही वाक्य के active या passive होने का संकेत भी दे सकते हैं। जैसे -

He goes to the office.

You go to the office.

She is going to the office.

He went to the office.

He is a teacher.

She was a teacher.

I am a teacher.

They are teachers.

You were a teacher.

ऊपर दिए गए वाक्यों में goes, go, is going, went, is, was, am, are, were सभी finite verbs हैं। ये सभी subject और tense के according बदल गए हैं।

### **Non-finite Verbs**

Non-Finite verb का subject, tense या number नहीं होता । यह subject के number के अनुसार नहीं बदलते। यह verb वास्तव में वाक्य बनाने वाली verb नहीं है। यह वाक्य में noun, adjective या adverb की तरह कार्य करते हैं। ये ना तो tense बनाते हैं और ना ही main verb की तरह use किये जाते हैं। जैसे -

It is dangerous **to drive** on this slippery road. इस फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाना खतरनाक है।

We are ready **to play** now. हम अब खेलने के लिए तैयार हैं।

I felt it difficult **to comprehend**. मुझे समझ में आना मुश्किल था।

I needed a sound sleep **to calm** my mind. मुझे अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक शांत नींद की आवश्यकता थी।

It is good **to know** that you can cook as well. यह कर अच्छा लगा है कि आप खाना भी बना सकते हैं।

I do not drink **boiled** water because of its weird taste. मैं इसके अजीब स्वाद के कारण उबला हुआ पानी नहीं पीता।

Virat is the most **wanted** player on the team. विराट टीम के सबसे चहेते खिलाड़ी हैं।

Manish gave up **smoking** a few years ago. मनीष ने कुछ साल पहले धूमपान छोड़ दिया था।

**Walking** is a habit you should develop from the beginning. चलना एक आदत है जिसे आपको शुरू से विकसित करना चाहिए।

**Running** like a maniac will not solve any problem. पागलों की तरह दौड़ने से कोई समस्या हल नहीं होगी।

**Sleeping** in the afternoon is not healthy at all. दोपहर में सोना बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है।

ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में bold और underlined words को देखिए। ये सभी verbs ही हैं पर इनका use main verb की तरह नहीं होता। कुछ verbs के आगे मैंने to का use किया है (Sentence 1 to 5) कुछ मैं verb के साथ ed form का (sentence 6 और 7) और कुछ ing form में हैं (Sentence 8 to 10) ये सभी non finite verb के example हैं।

इससे एक बात और clear होती है कि non finite verbs 3 प्रकार के होते हैं -

1. Infinitives
2. Participles
3. Gerunds

अब इनके बारे में एक एक कर जानते हैं -

### Infinitive -

Infinitive, Non-Finite Verbs के तीन प्रकारों में से एक है। Non-Finite verb का subject, tense या number नहीं होता है और यह अपनी form subject के number और person के अनुसार नहीं बदलता है।

Infinitive verb की मूल form है परंतु यह verb की तरह कार्य नहीं करता है। इसका प्रयोग आमतौर पर 'To' (To+Verb) के साथ होता है। कभी कभी इनका use बिना 'To' के भी किया जाता है। जब Infinitive verb की base form का use 'TO' के साथ किया जाता है तो उसे full Infinitive या To-Infinitive कहा जाता है और जब Infinitive का use बिना 'To' के किया जाता है तो उसे Bare Infinitive कहा जाता है।

Infinitive ('To' के साथ या बिना 'To' के) noun, adjective या adverb के तौर पर कार्य करता है और Verb की तरह कार्य नहीं करता है। चूंकि Infinitive Verb की तरह कार्य नहीं करता है, हम इसके साथ 's/es' or 'ed' or 'ing' नहीं जोड़ सकते हैं और यह किसी भी tense या subject के किसी भी number या person के साथ unchanged रहता है।

Infinitive को कई तरह से use किया जा सकता है - इन्हें verb के साथ, as a noun phrase, as a modifier, और question में भी use किया जा सकता है (जिसे हम इस course में cover नहीं कर रहे हैं) जैसे -

दूसरे verbs के साथ

अधिकतर time हम जब भी एक से अधिक verbs का use करते हैं तो to-infinitive का use किया जाता है। यहाँ पर कुछ exceptions भी हैं।

I aim to convince him of our plan's ingenuity. मेरा उद्देश्य उसे हमारी योजना की सरलता से समझाना है। (ingenuity - सरलता)

You already know that he'll fail to complete the task. आप पहले से ही जानते हैं कि वह कार्य पूरा करने में विफल रहेगा।

आप एक ही sentence में multiple infinitives का use कर sentence बोल सकते हैं जैसे -

Today, I am planning to do aerobics, to clean my room, and to watch three movies. आज, मैं एरोबिक्स करने, अपने कमरे को साफ करने और तीन फिल्में देखने की योजना बना रहा हूँ।

यहाँ पर हमने verb plan के साथ 3 infinitives का use किया है। कुछ ऐसे ही verbs जिनके बाद हम infinitives का use करते हैं - Afford, Agree, Aim, Appear, Attempt, Ask, Arrange, Beg, Begin, Care, Choose, Claim, Continue, Decide, Demand, Deserve, Dislike, Expect, Fail, Forget, Get, Hesitate, Hope, Hurry, Intend, Learn, Like, Love, Manage, Mean, Neglect, Need, Offer, Plan, Prefer, Prepare, Pretend, Proceed, Promise, Propose, Refuse, Remember, Seem, Start, Stop, Struggle, Swear, Threaten, Try, Wait, Want, Wish इत्यादि। मैंने कुछ common verbs लिए हैं जिनका आप अधिकतर use करते हैं Spoken English में। तो अब आप बोलते समय इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और गलती मत कीजियेगा। Examples अब आप बताईगा।

### **कुछ examples मैं देती हूँ -**

Vandana agreed to help me. वंदना मेरी मदद करने को तैयार हो गई।

She asked to leave. उसने जाने के लिए पूछा।

I can't afford to spend any more money this week. मैं इस सप्ताह और अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकता।

India will continue to prosper. भारत समृद्ध बना रहेगा।

यहाँ मैं एक बहुत common error की बारे में बात करती हूँ जो हम अक्सर बोलते समय करते हैं - आपने भी यह कहा होगा -

I'll try and be there by 10:00 tomorrow.

However, try के बाद to का use होता है इसलिए grammatically and का use करना गलत है। हालांकि यह construction casual conversation में आजकल acceptable है पर grammatically correct नहीं है, इसलिए formal situations में इसे use करने से बचना चाहिए। आप कह सकते हैं -

I'll try to be there by 10:00 tomorrow.

### **Bare Infinitive**

जैसा की हमने पहले भी बात की थी कि infinitive का use कभी कभी बिना to के भी किया जाता है, इस form को bare infinitive कहते हैं। नीचे दिए गए examples को देखिए -

I want to sit on the other chair. मैं दूसरी कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ।

I can sit here all day. मैं पूरे दिन यहाँ बैठ सकता हूँ।

दोनों sentences में to sit और sit Infinitive है। पहले sentence में to Infinitive और दूसरे sentence में Bare Infinitive. अधिकतर समय ये interchange नहीं किए जाते पर कुछ places हैं जैसे verb HELP के बाद, जहाँ दोनों का ही use किया जा सकता है।

कुछ places पर हम सिर्फ bare infinitive का ही use करते हैं जैसे -

1) helping verb do के साथ

Does she dance?

Manish doesn't sing.

2) Helping verbs जो tense, possibility, या ability जैसे will, can, could, should, would, and might को दर्शाए, उनके साथ भी bare infinitive का use होगा जैसे -

The lions will eat you if they catch you.

Roushan and Ishita might go to the dance.

You should give it a try.

Bare infinitive थोड़ा tricky है क्योंकि ये बिल्कुल verb की present tense की तरह दिखते हैं। दिए गए sentences को देखिए -

You lose things so often.

You can lose things at the drop of a hat. (at the drop of a hat - immediately / तुरंत)

दोनों ही sentences में lose word का use किया गया है पर पहले sentence में lose - present tense verb है जबकि दूसरे sentence में यह bare infinitive है। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा क्या है। यह बहुत ही simple है। Sentence के subject को बदल कर देखिए कि verb बदल रहा है की नहीं। जैसे पहले sentence में अगर हम YOU को SHE में बदलते हैं तो LOSE का LOSES हो जाएगा। इसका मतलब यह present tense verb है जबकि अगर हम दूसरे sentence में subject YOU को SHE में बदलते हैं तो भी LOSE को बदला नहीं जाएगा क्योंकि वहां verb can है।

She loses things so often.

She can lose things at the drop of a hat.

## **GERUNDS**

Non-Finite verb के तीन प्रकारों में से एक Gerund है। Gerund को एक प्रकार की संज्ञा भी कहा जा सकता है जो verb की तरह कार्य नहीं करती है। इन्हें verb के बाद ing जोड़ कर बनाया जाता है।

एक बहुत ही simple rule बताती हूँ - जब कोई verb ना से समाप्त हो तो Gerund होता है जैसे look - देखो, Looking - देखना।

Gerund का uses देखते हैं

1) Gerund का use वाक्य में एक subject की तरह होता है -

Abusing people is wrong. लोगों को गली देना गलत है।

Driving fast is dangerous. गाड़ी तेज़ चलना खतरनाक होता है।

Walking is good for you. सैर करना तुम्हारे लिए अच्छा है।

Swimming is the best exercise. तैरना सबसे अच्छी कसरत है।

#### 2) Gerund का प्रयोग Prepositions के बाद

Can you sneeze without opening your mouth? क्या तुम बिना मुँह खोले छींक नहीं सकते?

She is good at playing cricket. वह अच्छा क्रिकेट खेलती है।

I wash my hands before eating anything. मैं कुछ भी खाने से पहले हाथ धोता हूँ।

He always calls me before coming. वह आने से पहले फ़ोन करता है।

He was arrested for selling fake watches. उसे नकली घड़ियाँ बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया।

#### 3) Gerund का प्रयोग कुछ क्रिया के बाद

I like cooking. मुझे खाना बनाना पसंद है।

He keeps talking. वह हमेशा बोलता रहता है।

We love helping others. हमें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है।

He enjoys walking. उसे दौड़ना पसंद है।

#### 4) Gerund as Object

Neha loves sleeping. नेहा सोना पसंद करती है।

My friend dislikes walking. मेरा दोस्त चलना पसंद नहीं करता है।

I like fishing. मैं मछली पकड़ना पसंद करता हूँ।

Stop crying. रोना बंद करो।

The Younger generation prefer buying online. युवा पीढ़ी ऑनलाइन खरीदना ज्यादा पसंद करती है।

5) कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनके बाद Gerund का use होता है - need, avoid, like, dislike, excuse, enjoy, start इत्यादि। और भी verbs हैं पर मैंने यहाँ कुछ ही लिए हैं जिनका use हम daily conversation में करते हैं।

They avoid taking advantages.

He needs counseling.

6) कुछ ऐसे phrases भी होते हैं जिनके बाद हम gerund का ही use करते हैं जैसे - fed up with, addicted to, accustomed to, habituated to, with the view to इत्यादि।

I am fed up with waiting.

They are addicted to taking narcotics. (narcotics - नशीले पदार्थ)

## **PARTICIPLE**

अब जल्दी से participle के बारे में भी जान लेते हैं -

ऐसे शब्द जिनमें Verb (क्रिया) और Adjective (विशेषण) दोनों के गुण होते हैं, Participle कहलाते हैं। (जैसे - playing, dancing, singing)। Participle क्रिया का वह रूप है जो Adjective की तरह कार्य करता है (क्रिया से बनाया गया Adjective)। Participle को Verbal Adjective के नाम से भी जाना जाता है।

दूसरे शब्दों में, Participle क्रिया का वह रूप है जो वाक्य में Noun या Noun phrase की विशेषता बताता है और एक विशेषण की तरह use होता है। जैसे -

It is an interesting story.

It is a boring movie.

ऊपर के दोनो वाक्यों में, शब्द - interesting और boring क्रिया शब्द interest और bore से बने हुए हैं। पहले वाक्य में शब्द 'interesting' संज्ञा 'Story' के बारे में बता रहा है और दूसरे वाक्य में 'boring' संज्ञा 'movie' की के बारे में। इसलिये दोनो शब्द - interesting और boring, Adjective (विशेषण) का कार्य कर रहे हैं।

Participle तीन प्रकार के होते हैं -

1) Present Participle

Infinitive Verb + ing

It is an interesting news. यह एक मजेदार खबर है।

He is making a table. वह एक टेबल बना रहा है।

Being a manager, he also went to Japan. मैनेजर होने के नाते वह भी जापान गया।

2) Perfect Participle

Having + Past Participle

(जब एक कार्य पूर्ण रूप से कुछ ही समय पहले पूरा हो जाता है और उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है या पूरा होने को प्रयुक्त करता है तब परफेक्ट Participle का प्रयोग होता है।)

Having drafted the mail he showed it to his boss. मेल को ड्राफ्ट करके उसने अपने बॉस को दिखाया।

Having played a gamble he lost everything. जुआ खेल कर उसने सब कुछ गंवा दिया।

Having rested, he continued hard work. आराम कर उसने कठिन काम जारी रखा।

3) Past Participle

Infinitive + -d/-ed/-t/-en/-n

(Past Participle भूतकाल या किसी कार्य या समय के past में पूरा होने को व्यक्त करता है। यह भूतकाल में संपन्न हुए कार्य को व्यक्त करता है जो अब वर्तमान में नहीं चल रहा है।)

He has delivered a good speech. उसने एक अच्छा भाषण दिया है।

She had not read my letter. उसने मेरा पत्र नहीं पढ़ा था।

You have given a written application for your transfer. तुमने अपनी ट्रांसफर के लिये लिखित अर्जी दी है।

अब आपको verbs के बारे में detail knowledge हो गयी होगी। बोलते समय आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिये और अपनी English को impressive बनाइये। इसके साथ साथ, यह topic exam की दृष्टि से भी important है।